

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III-खण्ड 1
PART III-Section I

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 3] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 29, 1982/चैत्र 8, 1904
No 3] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 29, 1982/CHAITRA 8, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

राजिष्य मंत्रालय
(वस्त्र विभाग)
वस्त्र आयुक्त का कार्यालय
अधिसूचनाएं

बम्बई, 23 मार्च, 1982

सं.सी.इ.आर/2/82/4.—सूती वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, 1948 के खण्ड 20 में
प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, एतद्वारा निदेश देता हूँ कि अधिसूचना
सं. सी. इ. 2/77 दिनांक 15 अप्रैल, 1977 (समय-समय पर संशोधित) में
समाहित सभी आदेश, उस में निर्दिष्ट समय 31 मार्च, 1982 के बाद पांच साल

की अतिरिक्त अवधि के लिए अर्थात् 1-4-1982 से 31-3-1987 तक कार्यशील रहेंगे।

[सं. सीटीसीओ/एम. पी-82]

MINISTRY OF COMMERCE
(Department of Textiles)
Office of the Textile Commissioner

NOTIFICATIONS

Bombay, the 23rd March, 1982

No. CER/2/82/4.—In exercise of the powers conferred on me by Clause 20 of the Cotton Textiles (Control) Order, 1948, I hereby direct that all the directions contained in the Notification No. CER/2/77 dated the 15th April, 1977 (as amended from time to time) shall continue in operation beyond the date specified therein namely 31st March, 1982, for a further period of five years that is from 1-4-1982 to 31-3-1987.

[No. CTCO/MP-82]

सं. सी. इ. आर/24/82/5.—सूती वस्त्र (नियंत्रण) आदेश, 1948 के कण्ड 20 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्वारा निदेश देता हूँ कि अधिसूचना सं. सी. इ. आर/24/77, दिनांक 15 अप्रैल, 1977 (समय-समय पर संशोधित) में समाहित सभी आदेश, उसमें निर्दिष्ट समय 31 मार्च, 1982 के बाद 5 साल की अतिरिक्त अवधि के लिए अर्थात् 1-4-1982 से 31-3-1987 तक कार्यशील रहेंगे।

[सं. 10(19)/81-82/सी. पी.]

सुरेश कुमार, अतिरिक्त वस्त्र आयुक्त

No. CER/24/82/5.—In exercise of the powers conferred on me by Clause 20 of the Cotton Textiles (Control) Order, 1948, I hereby direct that all the directions contained in the Notification No. CER/24/77 dated the 15th April, 1977 (as amended from time to time) shall continue in operation beyond the date specified therein namely 31st March, 1982, for a further period of five years that is from 1-4-1982 to 31-3-1987.

[No. 10(19)/81-82/CP]

SURESH KUMAR, Addl. Textile Commissioner